

**Shri Gajanan Maharaj Shikshan Sansta,Amravati's  
Sant Gadge Baba Amravati University,Amravati,Maharashtra**

**Narayanrao Rana Mahavidyalaya Badnera**

**Tq.Dist-Amravati**

## 7.2 Best Practice – 1

### Environment awareness

**Best practice – 1**  
**Better environment better tomorrow**  
**Environment awareness**

**1. Objectives of the practice**

1. Students should develop a harmonious and balanced attitude towards the environment.
2. Students should develop their own positive attitude with knowledge, understanding, skills, awareness and real experience about the environment.
3. To increase the quality of the environment and create public awareness about the problem and conservation.
4. Improving the quality of environment in our country.
5. To become a social responsible citizen.

**2. Context**

The main aim of the practice is to impart knowledge, create awareness, develop an attitude of concern and nurture the necessary skills to handle the environmental issues and challenges. The rural village region and green landscaping of college are the necessary features for shaping and sustaining an eco friendly.

**3. The practice**

**1. Plantation**

Every year trees are planted in the college and nearby villages by the students as well as by the children of the area to create awareness about the environment among the children. Every year about 100 samplings are planted and maintained by our staff members and students.

**2. Organizing workshops**

This college organized a workshop to make Ganesha idols made of eco-friendly clay, and to use natural colors instead of chemical colors while celebrating Holi. Students were also given knowledge on how to create seed ball and how to plant it. Along with this, a workshop was organized to make paper bags.

**3. Leaflet distribution**

In order to create awareness among the common people about the environment, leaflets were distributed in various villages.

**4. Water conservation projects**

Under 'Pani Adva- Pani Jirwa' every year water conservation work is done.

**5. Conducting lectures**

On the occasion of Ozone Day, Vasundhara Day, World Environment Day, World Water Day, Chimney Day, various lectures were organized in the college.

**6. Organizing the tour and various competitions**

Slogan competitions, quizzes and an educational tour is organized every year in the college.

**7. Work for livestock**

During summers, when the animals do not get water, arrangements are made by the students of the college in their homes for the birds and panavathas were prepared in the college and other villages to provide water to animals. A system for Party Water for birds arranged by reusing plastic bottles.

**8. Plastic elimination programme**

Under the plastic elimination programme, plastic was collected from pilgrimage Kondeshwar, the college premises, Mill chawl area, government hospital, bus depot and a rally was organized



**Evidence of success**

1. Through the various activities students are made aware of environmental issue.
2. Environment awareness helps students understand how their decisions and actions affect the environment.
3. Through periodical tree plantations, flora and fauna on the campus have been enriched.

**Problems Encountered and resources required**

1. Lesser awareness among the students and community towards environmental issue aggravates the problem levels.
3. People have no knowledge about the factors that come in the environment and the interrelationship of those factors.
4. It is difficult to make people understand about environment.

**Best practice - 1**

**Better Environment Better Tomorrow**



**Principal Dr. G.S.Vairale and Dr. O.B.Munde guiding the students on the occasion of World Ozone Day, Dt.16 September 2017**



**Tree Plantation and distribution of sapling, 3 October 2019**



**Geography & Environment Tour at Durgapur krushi vidyan Kendra - 13 Jan 2020**



*[Signature]*  
**Principal**  
Narayanrao Rana Mahavidyalaya  
Badnera




**Sant Gadge Baba Amravati University, Affiliated**  
**Narayanrao Rana Mahavidyalaya, Badnera**  
**and**  
**Centre For Animal Rescue And Study**  
 Jointly Organizing  
 Invited Talk On  
**"Biodiversity Conservation"**  
**Tuesday :- 3rd March 2020**

**Speaker** **Chairman**  
**Dr.Sawan M.Deshmukh** **Dr.Gopal S.Vairale**  
 Director (CARS) **Organized By** (Principal)  
**Dr.Omprakash B. Munde**  
 Head  
 Department Of Geography




Latitude: 20.855113  
 Longitude: 77.727145  
 Accuracy: 1000.0m  
 Time: 03-03-2020 11:10  
 Note: Biodiversity

**Lecture on Biodiversity delivered by Dr.Sawan Deshmukh, Dt-03 March 2020**




**Environment Awareness Quiz Dt.5 June 2020**



**Slogan Competition On World Earth Day 22 April 2020**



**Party Water For Animal And Birds**



*(Signature)*  
**Principal**  
**Narayanrao Rana Mahavidyalaya**  
**Badnera**




संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती, सलग्रहित

**नारायणराव राणा महाविद्यालय बडनेरा**

**राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग**

**मातीचे गणेश मूर्ती प्रशिक्षण कार्यशाळा**

प्रशिक्षक - श्री अजय मुंद्रे      दिनांक - ६ सप्टेंबर २०२१



**प्रातिदिन अखबार**

**पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रशिक्षण कार्यशाळा**

नारायणराव राणा महाविद्यालय मेगसेयो वर आयोजन

प्रतिनिधि, २ सप्टेंबर अमरावती- नारायणराव राणा महाविद्यालय बडनेरा में राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा पर्यावरण पूरक गणपति प्रशिक्षण कार्यशाळा का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण में माटी से बनाने वाले मूर्तियों का प्रशिक्षण दिया गया. कार्यशाळा के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गोपाल एस. वैराळे और शुभम मुंद्रे प्रशिक्षक थे. प्रशिक्षण कार्यशाळा में कालेज के छात्र, मिलचाळ परस्कर के अच्छे और कालेज के प्रोफेसरों ने भाग लिया. कार्यशाळा का आयोजन डॉ. ओमप्रकाश मुंद्रे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. संगीता भंगडिया मालाणी महिला कार्यक्रम अधिकारी ने किया. कार्यक्रम का संचालन योगेश खडसे ने किया और सतीश खडसे ने आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में डॉ. खुराल अलसपुर, डॉ. अजलि वेपे, डॉ. सचिन होले, डॉ. हर्षल निभोरकर, प्रा. सतीश खोडे, प्रा. मनीष भडारी, प्रा. हेमंत बेलोकर, प्रा. माधुरी म्हस्के उपस्थित थे.



**नवभारत**


**पर्यावरणपूरक गणेश जनजागृति अभियान**

■ अमरावती, व्यूरी. राष्ट्रीय सेवा योजना एवं भूगोल विभाग द्वारा नारायणराव राणा महाविद्यालय बडनेरा में आयोजित 'पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव' का आयोजन किया गया. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों को स्थापित करना, सजावट के लिए धर्मोकोल, प्लास्टिक की वस्तुओं और विभिन्न रसायनों वाले पेंट का उपयोग न करने का आवाहन किया गया. अंजनगांव बारी, बडनेरा, जावरा, दहीगांव जैसे विभिन्न गांवों में छात्रों द्वारा पत्रक वितरित किए गए. पत्रक का वितरण कालेज के प्राचार्य डॉ. गोपाल वैराळे ने किया. इस समय प्रा. डा. खुराल अलसपुर, डा. सचिन होले, डा. अजलि पांडे, प्रा. सतीश खोडे, प्रा. मनीष भडारी, प्रा. हेमंत बेलोकर, प्रा. माधुरी म्हस्के उपस्थित थे. कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी तथा भूगोल विभाग प्रमुख डा.ओमप्रकाश मुंद्रे तथा डा. संगीता भंगडिया, महिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया गया.

Annavati Edition  
17-september-2021 Page No. 3  
epaper.enavabharat.com



Workshop On Eco-Friendly Ganesh idols & Awareness campaign on use of Eco-Friendly Ganesh idols



*(Signature)*  
Principal  
Narayanrao Ranade Mahavidyalaya





Amravati, Maharashtra, India

Unnamed Road, Nai Basti, Amravati, Maharashtra 444701, India

Lat 20.854346° Long 77.725341°

30/10/21 10:04 AM



Amravati, Maharashtra, India

Badnera Jn Yard, Badnera, Amravati, Maharashtra 444701, India

Lat 20.857631° Long 77.724642°

30/10/21 10:24 AM



दैनिक लोक सरकार  
link: kar776@gmail.com

## पर्यावरण संरक्षण के लिए बडनेरा मे छात्रों ने जमा किया प्लास्टिक

अमरावती (प्रतिनिधी) - नारायणराव राणा कॉलेज, बडनेरा में राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग ने गैर-पुनर्नवीनीकरण, गैर-अपघट्य प्लास्टिक निमूलन अभियान चलाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कॉलेज से मिल चाल, मांढी अस्पताल, बडनेरा बस स्टैंड तक बिछारे गैर-अपघटनीय प्लास्टिक को एकत्रित कर सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गोपाल एस. वैराल मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश मुंदे व महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मंगला भांगडिया मालानी ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के डॉ. खुशाल अहमदपुरी, डॉ. संतोष बनसाई, डॉ. अर्बाल चेंपे, डॉ. कल्पना मेहरे, डॉ. हर्षल निभोरकर, प्रा. स्तोत्रा खोंडे, प्रा. मनीष भडोंगे, प्रा. हेमंत बेलेंकर, प्रा. माधुरी पदुके का सहयोग मिला। इस मौके पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक मौजूद रहे।

Plastic Eradication Campaign Dt. 30 October 2021



Paper bags training workshop Dt. 22 December 2021



*[Signature]*  
Principal  
Narayanrao Rana Mahavidyalaya  
Badnera



नारायणराव राणा महाविद्यालय बडनेरा  
महिला समिति विभाग  
कार्यवाही विभाग गोविंदपुरी कार्यशाळा  
दिनांक २०/०५/२०२२  
प्रशिक्षक - क. स्नेहल मोटे

अ.क्र.	विद्यार्थीचे नाव	वर्ग	सही
1	...	B.A.II	...
2	...	B.A.II	...
3	...	B.A.II	...
4	...	B.A.II	...
5	...	B.A.II	...
6	...	B.A.II	...
7	...	B.A.II	...
8	...	B.A.II	...
9	...	B.A.II	...
10	...	B.A.II	...
11	...	B.A.II	...
12	...	B.A.II	...
13	...	B.A.II	...
14	...	B.A.II	...
15	...	B.A.II	...
16	...	B.A.II	...
17	...	B.A.II	...
18	...	B.A.II	...
19	...	B.A.II	...
20	...	B.A.II	...
21	...	B.A.II	...
22	...	B.A.II	...
23	...	B.A.II	...
24	...	B.A.II	...
25	...	B.A.II	...
26	...	B.A.II	...
27	...	B.A.II	...
28	...	B.A.II	...
29	...	B.A.II	...
30	...	B.A.II	...

Uday D. Khadke

# नारायणराव राणा कॉलेज में पेपर बैग बनाने की कार्यशाळा



स्थानीय नारायणराव राणा कॉलेज बडनेरा में महिला समिति द्वारा पेपर बैग बनाने की कार्यशाळा का आयोजन किया गया. प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है. पर्यावरण की रक्षा करना हमारा दायित्व और कर्तव्य है. छोटी-छोटी चीजों से पर्यावरण बचाने के उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने और रोजगार की दृष्टि से भी विद्यार्थियों ने सोचना चाहिए ऐसा मार्गदर्शन किया. कॉलेज की छात्रा स्नेहल मोटे ने विद्यार्थियों को पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया. इस अवसर पर तरह-तरह के पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया. कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रास्ताविक महिला



Amravati, Maharashtra, India  
BEHIND R.D.I.K COLLEGE MILL CHOWL, NEW TOWN, Badnera, Amravati, Maharashtra 444701, India  
Lat 20.857446° Long 77.724472°  
21/05/22 11:38 AM



Govindpur, Maharashtra, India  
Road number 199, near Kondeshwar Temple, Govindpur, Maharashtra 444701, India  
Lat 20.85453° Long 77.781304°  
05/08/22 11:25 AM

Student making seedballs



Amravati, Maharashtra, India 2022-08-05 11:27


## नवभारत

### कोंडेश्वर पर्वत पर बोई गई सीडबॉल

■ बडनेरा (सं). स्थानीय नारायणराव राणा कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना एवं भूगोल विभाग द्वारा छात्रों द्वारा बनाए गए सीडबॉल कोंडेश्वर की बंजर पहाड़ियों पर डाले गए. बरसों पहले पेड़ों से आच्छादित पहाड़ आज वीरान हो रहे हैं और यहां की जैवविविधता विनाश के कगार पर नारायणराव राणा कॉलेज की पहल है. इसीलिए पहाड़ पर हरियाली बसाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के उद्देश्य से छात्रों की मदद से यह उपक्रम चलाया गया. कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के प्राचार्य डॉ गोपाल वैरले ने मार्गदर्शन में भूगोल विभाग के प्रमुख एवं रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ ओमकारा मुंदे और डॉ. संगीता भांगड़िया मालानी द्वारा किया गया. साथ ही डॉ. खुशाल अलसपुरे का सहयोग मिला. छात्रों ने इस उपक्रम में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया.


Amravati Edition  
07-August-2022 Page No. 3  
epaper.enavabharat.com

Students planting seedballs at Kondeshwar



*[Handwritten Signature]*  
Principal  
Narayanrao Rana Mahavidyalaya  
Badnera





## पेरणापुंज

### नारायणराव राणा महाविद्यालय में जागतीक पर्यावरण दिन

**प्रतिनिधि/दि. ८ अमरावती -** नारायणराव महाविद्यालय बहनेन पर्यावरण विभाग द्वारा जागतीक पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ५ जून को ऑनलाइन पध्दति में पर्यावरण की सुरक्षा करि जने का प्रयास र्थाश्रदान का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गोपाल एम. वैरले ने की थी तथा प्रमुख अतिथि के रूप में गान्धीय महागुरु महाविद्यालय प्रमुख प्र. प्र. के. डॉ. आर.एम. मिर्मोडिया उपस्थित थे. कार्यक्रम का प्रारम्भिक प्रयोग प्रमुख प्रोग्रामरका प्रिन्टे ने र्था इस अवसर पर डॉ. मिर्मोडिया ने पर्यावरण की सुरक्षा को नजर मार्गदर्शन किया और विद्यार्थियों को पढ़े नगाने का आवाहन किया. उन्ही प्रकार कार्यक्रम अग्र्यश प्राचार्य वैरले ने विद्यार्थियों में पर्यावरण की सुरक्षा करि जने का प्रयास किया व प्लास्टिक का आवाहन किया. ऑनलाइन व्याख्यान का संयोजन व आयोजन प्रयोग प्रमुख डॉ. गुंने ने माना. इस अवसर पर डॉ. मूर्तल शंकर, डॉ. निराला मिश्र, प्र. निरुसंत नन्दे, प्र. चंद्रके नरकर, सचिन मोर्बे, अर्धिनीन शीट तथा महाविद्यालय के डॉ. गुरुपान ब्रजन्मयूर, डॉ. मंगला भर्गडिया, डॉ. मंजुष बन्मद, डॉ. कन्वन् केर, डॉ. अन्वने बन्म, डॉ. ललन निम्भकर, डॉ. राम खंडार व विद्यार्थी उपस्थित थे.

Guest lecture on World Environment Day –Dr. R. S. Sisodiya Dt. 5 June 2021



## अमरावती मंडल

### नारायणराव राणा कॉलेज में मनाया विश्व ओझोन दिवस

**भूगोल विभाग का आयोजन**  
अमरावती, दि. 18 सेप्टेम्बर - नारायणराव राणा कॉलेज में भूगोल विभाग द्वारा विश्व ओझोन दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन पध्दति में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का प्रारम्भिक प्रयोग प्रमुख प्रोग्रामरका प्रिन्टे ने र्था इस अवसर पर डॉ. मिर्मोडिया ने पर्यावरण की सुरक्षा को नजर मार्गदर्शन किया और विद्यार्थियों को पढ़े नगाने का आवाहन किया. उन्ही प्रकार कार्यक्रम अग्र्यश प्राचार्य वैरले ने विद्यार्थियों में पर्यावरण की सुरक्षा करि जने का प्रयास किया व प्लास्टिक का आवाहन किया. ऑनलाइन व्याख्यान का संयोजन व आयोजन प्रयोग प्रमुख डॉ. गुंने ने माना. इस अवसर पर डॉ. मूर्तल शंकर, डॉ. निराला मिश्र, प्र. निरुसंत नन्दे, प्र. चंद्रके नरकर, सचिन मोर्बे, अर्धिनीन शीट तथा महाविद्यालय के डॉ. गुरुपान ब्रजन्मयूर, डॉ. मंगला भर्गडिया, डॉ. मंजुष बन्मद, डॉ. कन्वन् केर, डॉ. अन्वने बन्म, डॉ. ललन निम्भकर, डॉ. राम खंडार व विद्यार्थी उपस्थित थे.

**पेरणापुंज**

**अमरावती दर्पण**

नारायणराव राणा कॉलेज में मनाया गया विश्व ओझोन दिवस

नारायणराव राणा कॉलेज में मनाया गया विश्व ओझोन दिवस

Guest lecture on World Ozone day –Dr.W.J.Uike Dt.18 Sept. 2021



## नवभारत

### राणा कॉलेज में मना विश्व जल दिवस

### प्राकृतिक जल संसाधनों की सुरक्षा जरूरी : डा. ताकसांडे

**चहनेरा (सं). स्थानीय नारायणराव राणा कॉलेज में भूगोल विभाग द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर व्याख्यान का आयोजन आभारी रूप से किया गया. कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गोपाल वैरले की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में ज्योतिर प्रमुख मार्गदर्शक प्रा. डॉ. सविशोर ताकसांडे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कुर्हा उपस्थित थे.**

**जरूरत के प्रति जागरूक कर रहे**  
कार्यक्रम का उद्देश्य एवं अतिथि का परिचय भूगोल विभाग प्रमुख प्रा. ओमप्रकाश मुंदे ने किया. उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों को पानी का महत्व समझाने, लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, और दुनिया की पानी की जरूरतों के प्रति जागरूक करने उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस मनाया शुरू किया है. उन्होंने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय भूजल शीम भूजल अदृश्य है, लेकिन संसाधन मूल्यवान केन्द्र द्वारा इसका प्रभाव हर जनक दिवसां तैयार 2022 विश्व जल दिन की देता है.

Guest lecture on World Water Day –Dr.Kishor Taksande Dt.23 March 2022



*(Signature)*  
Principal  
Narayanrao Rana Mahavidyalaya  
Chahnera





होळी साजरी करा | पण वृक्षतीड टाळा ||  
 रंगपंचमी साजरी करा पण | पाण्याचा अपव्यय टाळा ||  
 रंगपंचमी साजरी करा | पण रासायनिक रंग टाळा ||

होळी हा रंगाचा उत्सव आहे. हा उत्सव साजरा करतांना पाण्याचा व रासायनिक रंगाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. रासायनिक रंगात विषारी घटक असतात जे आरोग्यावर वाईट परिणाम करतात -

**रासायनिक रंग व त्याचे परिणाम**

रंग	रासायनिक घटक	परिणाम
हिरवा	कॉपर सल्फेट	डोळ्यांना इजा व अंधत्व
लाल	मर्क्युरी सल्फाईड	त्वचेचा कर्करोग, अधांगवासु व दृष्टीहिनता
जांभळा	कोबोयस आयोडाईड	अस्थि व अंतर्जी
चंदेरी	ॲल्युमिनियम ब्रोमाईड	कॅन्सर
निळा	युरेनियम ड्युऑक्साईड	त्वचारोग
काळा	लेड ऑक्साईड	कीडनी विकार, लहान मुलांमध्ये लर्निंग डिझअॅबिलिटी

त्यामुळे उत्सावाचा खरा आनंद घेण्यासाठी नैसर्गिक रंगाचा वापर करा

**" रंगाच्या उत्सावाचा नको बेरंग म्हणूनच वापरा फक्त नैसर्गिक रंग "**


**नैसर्गिक रंग निर्मितीचे स्त्रोत**

हिरवा	- मोहंदीची पाने, गुलमोहराची पाने, करवंदाची पाने
पिवळा	- हळद, बेलाचे फळ, झेंडूची फुले, सुर्यफुल, पळसाची फुले
लाल	- राक्तचंदन पावडर, डाळींब, डाळींबाची साल, जास्वंद
निळा	- द्राक्षांच्या काही जाती व निळी जास्वंद
काळा	- द्राक्षांच्या व आवळ्यांच्या काही जाती
मुलाबी व जांभळा	- बीट रूट


**भूगोल विभाग**  
**नारायणराव राणा महाविद्यालय, बडनेरा**

डॉ. गोपाल एस वैराळे प्राचार्य    डॉ. ओमप्रकाश बी. मुंदे भूगोल विभाग प्रमुख    कु. भावना एम. आसकरकर अध्यक्ष, भूगोल अभ्यास मंडळ    कु. प्राची पी. रंगारी अध्यक्ष, निरंतर क्लब

वेणशी, अम. ५४२२२५१२०९



Public awareness campaign for Chemical colours and their effects



*(Handwritten Signature)*  
**Principal**

**Narayanrao Rana Mahavidyalaya**  
 Badnera



**लोकशाही वार्ता**  
**अमरावती**  
सागर, बुधवार, ३ मार्च २०२०/२९

**गुड मॉर्निंग**

**वन्यजीव दिनानिमित्त जैवविविधता संवर्धनावर व्याख्यान**

वन्यजीव दिनाचाराची जाहीर/अमरावती वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात...



वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात...

**नवभारत**

**राणा कॉलेज में सीड्स बॉल का निर्माण**  
**पर्यावरण सुरक्षा के लिये विद्यार्थियों की पहल रंग ला रही**

बडनेरा (सं). भुजल स्वर और यहाँ दिन-रात चले जा रहे हैं और तापमान तेजी से बढ़ रहा है. इस पर येड़ लगाना ही एकमात्र उपाय है. रोपण आसान, सरल और सुखद ही तो लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है. खुले स्थान में बीज बोने का ये पथिनी द्वारा खयाल जा सकता है या बीज अन्य स्थानों पर डक सकता है. लेकिन सीड बॉल बीज को मिट्टी में अंकुरित होने में मदद करता है. अगर सीड्स बॉल तयार कर खरीदा में खुले जगह पर, सड़क के दोनों ओर या पहाड़ों पर डालने से बीज अंकुरित होकर पौधे तयार होने एवं विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण संकृति अंकुरित होने के उद्देश्य से सीड्स बॉल का निर्माण नायवणराव राणा कॉलेज बडनेरा में भूगोल विभाग और रसेयो छाप विद्यापीठ की गई. छात्रों ने इस कार्य के लिये मिट्टी, गोबर और बीज लेकर आए. कलेज में करीब 500 सीड्स बॉल बनाए. इस कार्य के लिये भूगोल विभाग प्रमुख डॉ.ओमप्रकाश मुंदे, रसेयो महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ.संगीता भांगडिया मालानी एवं छात्रों ने परीश्रम दिए.



वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात...

Amravati Edition  
13-May-2022 Page No. 2  
epaper.anavabharat.com

**लोकमानस**

**नारायणराव राणा महाविद्यालयात**  
**जागतिक चिमणी दिन**

लोकमानस न्युज नेटवर्क अमरावती-स्थानिक नारायणराव राणा महाविद्यालय बडनेरा येथील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाद्वारे जागतिक चिमणी दिन साजरा करण्यात आला. आजच्या आधुनिकीकरणाच्या युगात चिमण्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे. चिमण्यांच्या कमी होत असलेल्या संख्येवर आज प्रत्येक नागरिकांनी विचार करायला हवा. या तत्त उन्हात चिमण्यांना शहरामध्ये पाणीही मिळत नाही असे दिसून येत आहे. त्यासाठी आपण प्रत्येकाने आपल्या घरा समोरील अंगणामध्ये, गच्चीवर, गॅलरीत चिमण्यांसाठी आणि इतर पक्ष्यांसाठी पाण्याची व खाद्यपदार्थ टेबण्याची व्यवस्था करण्याचे आह्वान महाविद्यालयातील प्राचार्य डॉ गोपाल वैराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाद्वारे करण्यात आले. या कार्यक्रमाविषयी विद्यार्थ्यांना सूचना राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ.ओमप्रकाश मुंदे व महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संगीता भांगडिया मालानी यांनी केली. त्यानुसार अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या घरासमोरील अंगणात, गच्चीवर, झाडावर, गॅलरीत पक्ष्यांसाठी पाण्याचे भांडे व खाद्यपदार्थ ठेवले.



वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात...

**दैनिक भास्कर**

**पर्यावरण रक्षा के लिए विद्यार्थियों ने बनाए सीड्स बॉल**

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों ने अभिनव पहल की है। बाहर के इलाके में सीड्स बॉल विभिन्न स्थानों पर डालकर पौधे अंकुरित करने के लिए उपक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए अभी से ही तैयारिया शुरू कर दी गई हैं। यही नहीं सीड्स बॉल बनाने का विचार ही है। पौधों को सीड्स बॉल में तैयार करने और इन्हें दिन भर रखी गई है। कारण भुजल स्तर भी घटने लगा है। इस पर पर्यावरण कक्षा ही एकमात्र उपाय है। रोपण आसान, सरल और सुखद ही तो लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। खुले स्थान में बीज बोने का ये पथिनी द्वारा खयाल जा सकता है या बीज अन्य स्थानों पर डक सकता है। लेकिन सीड बॉल बीज को मिट्टी में अंकुरित होने में मदद करता है। अगर सीड्स बॉल तयार कर खरीदा में खुले जगह पर, सड़क के दोनों ओर या पहाड़ों पर डालने से बीज अंकुरित होकर पौधे तयार होने एवं विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण संकृति अंकुरित होने के उद्देश्य से सीड्स बॉल का निर्माण नायवणराव राणा कॉलेज बडनेरा में भूगोल विभाग विभाग और रसेयो छाप विद्यापीठ की गई. छात्रों ने इस कार्य के लिये मिट्टी, गोबर और बीज लेकर आए. कलेज में करीब 500 सीड्स बॉल बनाए. इस कार्य के लिये भूगोल विभाग प्रमुख डॉ.ओमप्रकाश मुंदे, रसेयो महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ.संगीता भांगडिया मालानी एवं छात्रों ने परीश्रम दिए.



वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात वन्यजीव दिनाचाराच्या निमित्ताने राणा महाविद्यालयात...

Fri, 13 May, 2022  
<https://epaper.bhaskarhindi.com/c/68007903>



Principal  
Narayanrao Rana Mahavidyalaya  
Badnera



पाणी अडवा पाणी जिरवा  
Pani Adawa Pani Jirva



Shipgaon Talukka-Bhatkuli



Pimpri Yadgire Taluka - Amravati